



चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Department of Medical, Health & Family Welfare

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan



सत्यमेव जयते

Helpline Number
for corona-virus

Rajasthan
0141-
2225624/2225000
Toll Free No:
104/108

National Call Center
No
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075

Whatsapp Chatbot
+911412225624

Helpline Email ID
for corona-virus :
rajasthan_idsp[at]
yahoo[dot]co[dot]in

COVID Facilities in
Rajasthan
(27.06.2020)

Frequently Asked
Questions on
(FAQs)

Mobile Application
RSMP



RSMP मोबाईल ऐप डाउनलोड
करने के लिए Q.R.Code Scan
करें।



Rajasthan Teleconsultation
Services

[Click Here for Main Website](#)

Novel Corona Virus (COVID-19)

Home	Travel Advisories	Behavioural Health	Citizens	Hospitals	States/Departments/ Ministries	Employees	Awareness Material
------	-------------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------

1244387
Total Sample
Collected

1207571
Negative
Cases

30741
Positive
Cases

22299
Cured /
Recovered

6075
Report
Awaited

574
Cumulative
Death



श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान



डॉ. रघु शर्मा
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थान



डॉ. सुभाष गर्ग
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री,
राजस्थान

District Wise Status of COVID-19 Date-21.7.2020 (Time 10:30 A.M)

S.No	District	Total Sample Received	Today's Positive	Cumulative Positive	Cumulative Recovered	Cumulative Discharged
1	AJMER	39182	27	1220	723	723
2	ALWAR	33630	103	1911	920	221
3	BANSWARA	8372	1	115	103	98
4	BARAN	8936	1	80	72	72
5	BARMER	27319	0	995	555	549
6	BHARATPUR	33735	0	2181	1920	1920
7	BHILWARA	45097	3	360	280	278
8	BIKANER	51087	0	1433	679	679
9	BUNDI	7145	1	38	15	15
10	CHITTORGARH	13234	0	219	206	205
11	CHURU	15912	0	522	386	386
12	DAUSA	13991	18	259	219	219
13	DHOLPUR	25872	0	1022	789	789
14	DUNGARPUR	33642	5	524	484	469
15	GANGANAGAR	10585	7	112	60	60
16	HANUMANGARH	13163	10	167	90	90
17	JAIPUR	152094	20	4425	3374	3374

18	JAISALMER	23107	0	144	115	115
19	JALORE	46718	43	927	678	678
20	JHALAWAR	35880	0	411	383	383
21	JHUNJHUNU	19462	3	503	455	455
22	JODHPUR	215223	0	4832	3484	3479
23	KARAULI	8520	0	228	112	112
24	KOTA	82444	15	1061	809	799
25	NAGPUR	34899	32	1137	867	867
26	PALI	57801	0	2057	1411	1411
27	PRATAPGARH	11409	0	159	132	132
28	RAJSAMAND	16186	0	471	364	350
29	S.MADHOPUR	10773	4	162	115	115
30	SIKAR	48471	20	756	690	690
31	SIROHI	29896	23	763	602	602
32	TONK	15796	7	233	211	211
33	UDAIPUR	49844	7	1011	840	792
Other State/country		4962	1	181	41	41
Total		1244387	351	30619	22184	21379
Other (Italy)		0	2	2	2	2
Evacuees		0	61	61	61	61
BSF		0	59	52	52	52
G Total			351	30741	22299	21494

COVID Facilities in Rajasthan

LATEST UPDATES

प्रेस-विज्ञप्ति
(Only for Private Sector)

1.(Only for Private Sector) Details of Manpower willing to work for COVID-19 patient

2. (Only for Private Sector) Details of hospital voluntarily agreeing to provide services for the treatment of COVID-19 patient

कोरोना वायरस (Corona Virus Important Letter for Department)

State Officials/incharge for COVID 19

District Officials/ incharge for 19Corona

MoHFW Website

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

नया कोरोना वायरस कुत्तों या बच्चों को प्रभावित नहीं करता है, कुत्तों को नहीं। सभी उम्र के लोग इस वायरस (nCoV-2019) से संक्रमित हो सकते हैं। कुत्तों और पालतू से कमजोर सहित (जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, दिल के मरीज) वाले संक्रमण से जल्द बस हो अव्यक्त बीमार हो जाते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

विटामिन-सी के भण्डार सेवन से कोलेस्ट्रॉल सेवन से प्रतिरक्षा बढ़ती है। लेकिन, इसके अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती है।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कोले का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

कुम्भारन अर्था 5 दिनों तक है। "कुम्भारन अर्था" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कुम्भारन अर्था 1-14 दिनों तक है।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

एक चीनी चिकित्सक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल सेवन - का इलाज है एक कठोरी लहसुन। ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

खुद बचें दूसरों को भी बचाएं

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

क्या घर के सदस्यों को भी आराम में दूरी रखनी है? हाँ! निम्न संभव दो अवस्थाएँ दूरी रखनी चाहिए। आज और 12-14 वर्ष के अंतर। उम्र के लोगों, नवजात शिशुओं और वृद्धों के बीच।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

KEEP DISTANCE

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

लोगों से दूरी बनाए रखें

कोरोना से दूरी बनी रहेगी

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

विश्वास में रहें

निवास में रहें

कोरोना वायरस - घर में रहें सुरक्षित रहें।

COVID-19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

राजस्थान, सार्वजनिक

COVID - 19

सच

कोरोना वायरस के संकेत दिखाने दिनों में दिखते हैं।

समाधान तैयार पर 5 से 7 दिनों में इसके संकेत बस जा जाते हैं। कई बार 14 दिनों तक का भी समय लगता है। इसी कारण 14 दिन अवधि-आधारित चीजें रख रख जाते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए शराब पीने से बचना चाहिए। शराब पीने से किरी के वायरस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

**दिल दिया है जा भी देंगे
ए वयन तेरे लिए**

आशा कार्यकर्ता हार नहीं जाएं
संकट काल में आज आपने क्या योगदान दिया?

ASHA workers make masks at home amid Covid battle

आइये, हम सब की किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दे,
हम महामारी से निपटने में

Covid19 कोविड से युद्धमें हैं और युद्ध को जी युद्धमें हैं
ऑफिस ऑपरेशन के लिए rajaguru@gmail.com या सवाली की
बचत को संभालें।
#राजगुरुआवश्यकताएं

घर घर पहुँचकर हाथ साफ़ कीजिए, भोजन करें नियमित।
हम घर से बाहर निकलकर जायें, हमकी मेहनत बेकार॥



COVID-19 को रोकने में घरों से बाहर की चीजों को भी सुरक्षित रखना भी एक आवश्यक कदम है।
लेकिन घर से बाहर की चीजों को सुरक्षित रखने में और अच्छी सुरक्षा से निपटने का समय आगमन है।

किसी भी चीज को सुरक्षित रखने में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि चीजें सुरक्षित हैं।
अधिक जानकारी के लिए rajwasthya.nic.in पर सम्पर्क करें

मैं राजस्थान, यारों मैं

दूसरो की मदद भी सावधानी और सतर्कता से करनी है





NO CROWD NO SOCIAL GATHERING NO GROUP KITCHEN

COVID-19 को रोकने में दूसरों की भी मदद करो। जो दुखित हैं, उन्हें भी आसानी से अपना ही काम बना सकते हैं।
अगर आप सो चाहते हैं कि दूसरे भी COVID-19 से सुरक्षित रह सकें तो आपको इन बातों का पालन करना होगा:

- अपने हाथ धो लें - +91 9230239494 या हमारे वेबसाइट पर - +91 9414222924, 22292940
- अधिक जानकारी के लिए rajswasthya.nic.in पर रायचक्र करें

सीएसआरएल, वार्ड-3

[illegible][illegible]

कोरोना वायरस से बचाव के पांच सबसे महत्वपूर्ण उपाय

इन पांचों की जानकारी और इसे कोशिश करें आप स्वस्थ रहेंगे



1. **घर में भी, बाहर भी हाथों का सही से धोना**।
सबसे अच्छा उपाय एक ही है: हाथों को



2. **हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें**।
हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें



3. **हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें**।
हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें



4. **हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें**।
हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें



5. **हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें**।
हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें



6. **हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें**।
हमेशा ही एक ही जगह पर खड़े होकर बातें करें

COVID-19 को रोकने के उपकरण और इसे हटाने की 5 मुख्य बातें

अधिक जानकारी के लिए www.rayacharya.com पर जाएं

डॉ. रायचर्या और डॉ. रायचर्या 092-2222222, 092-2222222, 092-2222222

**सतर्क रहने की ज़रूरत है
सुपर हीरो बनिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें
कोरोना वाइरस को फैलने से रोकें**



कोरोना संक्रमित से सतर्क हो और घरेलू और भी सतर्क रहें। शरीर में असमर्थता शुरू होने से भीत घर-बाजार को छोड़ना बंद करें और आवश्यक वस्तुएं ही घर-बाजार से लाने दें।

अजित कुमार जी के लिए rajawasthya.nic.in पर सतर्क रहें

मैरानामा, सतर्क हो

कोरोना के संक्रमण से बचन

